



Sachin Kumar

08 Sep 1999

11:05 PM

Gurgaon

Model: Web-MyKundli

Order No: 121169101

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 08/09/1999
दिन _____: बुधवार
जन्म समय _____: 23:05:00 घंटे
इष्ट _____: 42:34:20 घटी
स्थान _____: Gurgaon
राज्य _____: Haryana
देश _____: India

अक्षांश _____: 28:27:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:01:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:56 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 22:43:04 घंटे
वेलान्तर _____: 00:02:06 घंटे
साम्पातिक काल _____: 21:52:26 घंटे
सूर्योदय _____: 06:03:15 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:35:49 घंटे
दिनमान _____: 12:32:34 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 21:46:29 सिंह
लग्न के अंश _____: 18:33:14 वृष

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: वृष - शुक्र
राशि-स्वामी _____: सिंह - सूर्य
नक्षत्र-चरण _____: मघा - 3
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: सिद्ध
करण _____: शकुनि
गण _____: राक्षस
योनि _____: मूषक
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: वनचर
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: मू-मुकेश
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कन्या

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1921	भाद्रपद	17
पंजाबी	संवत : 2056	भाद्रपद	23
बंगाली	सन् : 1406	भाद्रपद	22
तमिल	संवत : 2056	आवनी	23
केरल	कोल्लम : 1175	चिंगम	23
नेपाली	संवत : 2056	भाद्रपद	23
चैत्रादि	संवत : 2056	भाद्रपद	कृष्ण 14
कार्तिकादि	संवत : 2056	श्रावण	कृष्ण 14

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 14
तिथि समाप्ति काल _____ : 28:15:49
जन्म तिथि _____ : 14
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : आश्लेषा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 10:33:40 घंटे
जन्म योग _____ : मघा
सूर्योदय कालीन योग _____ : शिव
योग समाप्ति काल _____ : 19:28:09 घंटे
जन्म योग _____ : सिद्ध
सूर्योदय कालीन करण _____ : विष्टि
करण समाप्ति काल _____ : 16:46:42 घंटे
जन्म करण _____ : शकुनि
भयात _____ : 31:18:22
भभोग _____ : 59:13:11
भोग्य दशा काल _____ : केतु 3 वर्ष 3 मा 13 दि

घात चक्र


मास _____ : ज्येष्ठ
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शनिवार
नक्षत्र _____ : मूल
योग _____ : धृति
करण _____ : बव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : मीन
सूर्य _____ : धनु
चन्द्र _____ : मकर
मंगल _____ : मकर
बुध _____ : तुला
गुरु _____ : कुम्भ
शुक्र _____ : मीन
शनि _____ : वृश्चिक
राहु _____ : मेष

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

	श गु	ल	
			रा शु
के			बु सू चं
	मं		

लग्न कुण्डली

ल	श गु	
रा शु		के
चं सू बु		मं

विंशोत्तरी
केतु 3वर्ष 3मा 13दि
केतु

08/09/1999

23/12/2115

केतु	22/12/2002
शुक्र	22/12/2022
सूर्य	21/12/2028
चन्द्र	22/12/2038
मंगल	21/12/2045
राहु	22/12/2063
गुरु	22/12/2079
शनि	22/12/2098
बुध	23/12/2115

योगिनी
भद्रिका 2वर्ष 4मा 5दि
धान्या

13/01/2026

12/01/2029

धान्या	14/04/2026
भामरी	14/08/2026
भद्रिका	13/01/2027
उल्का	15/07/2027
सिद्धा	13/02/2028
संकटा	13/10/2028
मंगला	13/11/2028
पिंगला	12/01/2029


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			वृष	18:33:14	365:14:29	रोहिणी	3	4	शुक्र	चंद्र	बुध	---
सूर्य			सिंह	21:46:29	00:58:17	पूर्वाफाल्गुनी	3	11	सूर्य	शुक्र	गुरु	स्वराशि
चंद्र			सिंह	07:04:28	13:30:16	मघा	3	10	सूर्य	केतु	राहु	मित्र राशि
मंगल			वृश्चि	09:53:57	00:38:29	अनुराधा	2	17	मंगल	शनि	शुक्र	स्वराशि
बुध	अ		सिंह	21:52:33	01:53:48	पूर्वाफाल्गुनी	3	11	सूर्य	शुक्र	गुरु	मित्र राशि
गुरु	व		मेष	10:46:57	00:02:54	अश्विनी	4	1	मंगल	केतु	शनि	मित्र राशि
शुक्र	व		कर्क	25:02:29	00:05:25	आश्लेषा	3	9	चंद्र	बुध	राहु	शत्रु राशि
शनि	व		मेष	23:14:56	00:01:02	भरणी	3	2	मंगल	शुक्र	शनि	नीच राशि
राहु	व		कर्क	18:52:49	00:02:06	आश्लेषा	1	9	चंद्र	बुध	केतु	शत्रु राशि
केतु	व		मक	18:52:49	00:02:06	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	बुध	शत्रु राशि
हर्ष	व		मक	19:46:45	00:01:54	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	केतु	---
नेप	व		मक	08:04:00	00:01:04	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	शुक्र	---
प्लूटो			वृश्चि	14:00:23	00:00:41	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	राहु	---
दशम भाव			कुंभ	01:59:50	--	धनिष्ठा	--	23	शनि	मंगल	केतु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:50:57


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	वृष 00:47:40	वृष 18:33:14
2	मिथुन 00:47:40	मिथुन 13:02:06
3	मिथुन 25:16:32	कर्क 07:30:58
4	कर्क 19:45:24	सिंह 01:59:50
5	सिंह 19:45:24	कन्या 07:30:58
6	कन्या 25:16:32	तुला 13:02:06
7	वृश्चिक 00:47:40	वृश्चिक 18:33:14
8	धनु 00:47:40	धनु 13:02:06
9	धनु 25:16:32	मकर 07:30:58
10	मकर 19:45:24	कुम्भ 01:59:50
11	कुम्भ 19:45:24	मीन 07:30:58
12	मीन 25:16:32	मेष 13:02:06


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	वृष	18:33:14
2	मिथुन	12:39:38
3	कर्क	05:54:47
4	सिंह	01:59:50
5	कन्या	03:54:18
6	तुला	11:26:42
7	वृश्चिक	18:33:14
8	धनु	12:39:38
9	मकर	05:54:47
10	कुम्भ	01:59:50
11	मीन	03:54:18
12	मेष	11:26:42


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 3 वर्ष 3 मास 13 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
08/09/1999	22/12/2002	22/12/2022	21/12/2028	22/12/2038
22/12/2002	22/12/2022	21/12/2028	22/12/2038	21/12/2045
00/00/0000	शुक्र 22/04/2006	सूर्य 10/04/2023	चंद्र 22/10/2029	मंगल 20/05/2039
00/00/0000	सूर्य 22/04/2007	चंद्र 10/10/2023	मंगल 23/05/2030	राहु 06/06/2040
00/00/0000	चंद्र 21/12/2008	मंगल 15/02/2024	राहु 21/11/2031	गुरु 13/05/2041
00/00/0000	मंगल 20/02/2010	राहु 08/01/2025	गुरु 22/03/2033	शनि 22/06/2042
08/09/1999	राहु 20/02/2013	गुरु 28/10/2025	शनि 22/10/2034	बुध 19/06/2043
राहु 10/12/1999	गुरु 22/10/2015	शनि 10/10/2026	बुध 22/03/2036	केतु 15/11/2043
गुरु 15/11/2000	शनि 22/12/2018	बुध 16/08/2027	केतु 21/10/2036	शुक्र 14/01/2045
शनि 24/12/2001	बुध 22/10/2021	केतु 22/12/2027	शुक्र 22/06/2038	सूर्य 22/05/2045
बुध 22/12/2002	केतु 22/12/2022	शुक्र 21/12/2028	सूर्य 22/12/2038	चंद्र 21/12/2045

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
21/12/2045	22/12/2063	22/12/2079	22/12/2098	23/12/2115
22/12/2063	22/12/2079	22/12/2098	23/12/2115	00/00/0000
राहु 03/09/2048	गुरु 08/02/2066	शनि 25/12/2082	बुध 20/05/2101	केतु 20/05/2116
गुरु 27/01/2051	शनि 21/08/2068	बुध 03/09/2085	केतु 17/05/2102	शुक्र 20/07/2117
शनि 03/12/2053	बुध 27/11/2070	केतु 13/10/2086	शुक्र 17/03/2105	सूर्य 25/11/2117
बुध 22/06/2056	केतु 03/11/2071	शुक्र 12/12/2089	सूर्य 22/01/2106	चंद्र 26/06/2118
केतु 10/07/2057	शुक्र 04/07/2074	सूर्य 24/11/2090	चंद्र 23/06/2107	मंगल 22/11/2118
शुक्र 10/07/2060	सूर्य 22/04/2075	चंद्र 25/06/2092	मंगल 19/06/2108	राहु 09/09/2119
सूर्य 03/06/2061	चंद्र 21/08/2076	मंगल 03/08/2093	राहु 07/01/2111	00/00/0000
चंद्र 03/12/2062	मंगल 28/07/2077	राहु 09/06/2096	गुरु 14/04/2113	00/00/0000
मंगल 22/12/2063	राहु 22/12/2079	गुरु 22/12/2098	शनि 23/12/2115	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 3 वर्ष 3 मा 18 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

सूर्य - शनि	सूर्य - बुध	सूर्य - केतु	सूर्य - शुक्र	चंद्र - चंद्र
28/10/2025	10/10/2026	16/08/2027	22/12/2027	21/12/2028
10/10/2026	16/08/2027	22/12/2027	21/12/2028	22/10/2029
शनि 22/12/2025	बुध 23/11/2026	केतु 24/08/2027	शुक्र 21/02/2028	चंद्र 15/01/2029
बुध 09/02/2026	केतु 11/12/2026	शुक्र 14/09/2027	सूर्य 10/03/2028	मंगल 02/02/2029
केतु 01/03/2026	शुक्र 31/01/2027	सूर्य 20/09/2027	चंद्र 09/04/2028	राहु 20/03/2029
शुक्र 28/04/2026	सूर्य 16/02/2027	चंद्र 01/10/2027	मंगल 01/05/2028	गुरु 29/04/2029
सूर्य 15/05/2026	चंद्र 14/03/2027	मंगल 08/10/2027	राहु 25/06/2028	शनि 17/06/2029
चंद्र 13/06/2026	मंगल 01/04/2027	राहु 27/10/2027	गुरु 12/08/2028	बुध 30/07/2029
मंगल 03/07/2026	राहु 17/05/2027	गुरु 14/11/2027	शनि 09/10/2028	केतु 17/08/2029
राहु 24/08/2026	गुरु 28/06/2027	शनि 04/12/2027	बुध 30/11/2028	शुक्र 06/10/2029
गुरु 10/10/2026	शनि 16/08/2027	बुध 22/12/2027	केतु 21/12/2028	सूर्य 22/10/2029
चंद्र - मंगल	चंद्र - राहु	चंद्र - गुरु	चंद्र - शनि	चंद्र - बुध
22/10/2029	23/05/2030	21/11/2031	22/03/2033	22/10/2034
23/05/2030	21/11/2031	22/03/2033	22/10/2034	22/03/2036
मंगल 03/11/2029	राहु 13/08/2030	गुरु 25/01/2032	शनि 22/06/2033	बुध 03/01/2035
राहु 05/12/2029	गुरु 25/10/2030	शनि 11/04/2032	बुध 12/09/2033	केतु 02/02/2035
गुरु 02/01/2030	शनि 20/01/2031	बुध 19/06/2032	केतु 16/10/2033	शुक्र 29/04/2035
शनि 05/02/2030	बुध 07/04/2031	केतु 18/07/2032	शुक्र 20/01/2034	सूर्य 25/05/2035
बुध 07/03/2030	केतु 09/05/2031	शुक्र 07/10/2032	सूर्य 18/02/2034	चंद्र 07/07/2035
केतु 20/03/2030	शुक्र 08/08/2031	सूर्य 31/10/2032	चंद्र 07/04/2034	मंगल 07/08/2035
शुक्र 24/04/2030	सूर्य 05/09/2031	चंद्र 11/12/2032	मंगल 11/05/2034	राहु 23/10/2035
सूर्य 05/05/2030	चंद्र 20/10/2031	मंगल 08/01/2033	राहु 06/08/2034	गुरु 31/12/2035
चंद्र 23/05/2030	मंगल 21/11/2031	राहु 22/03/2033	गुरु 22/10/2034	शनि 22/03/2036
चंद्र - केतु	चंद्र - शुक्र	चंद्र - सूर्य	मंगल - मंगल	मंगल - राहु
22/03/2036	21/10/2036	22/06/2038	22/12/2038	20/05/2039
21/10/2036	22/06/2038	22/12/2038	20/05/2039	06/06/2040
केतु 04/04/2036	शुक्र 31/01/2037	सूर्य 01/07/2038	मंगल 30/12/2038	राहु 16/07/2039
शुक्र 09/05/2036	सूर्य 02/03/2037	चंद्र 16/07/2038	राहु 22/01/2039	गुरु 05/09/2039
सूर्य 20/05/2036	चंद्र 22/04/2037	मंगल 27/07/2038	गुरु 11/02/2039	शनि 05/11/2039
चंद्र 07/06/2036	मंगल 27/05/2037	राहु 23/08/2038	शनि 06/03/2039	बुध 29/12/2039
मंगल 19/06/2036	राहु 27/08/2037	गुरु 17/09/2038	बुध 27/03/2039	केतु 21/01/2040
राहु 21/07/2036	गुरु 16/11/2037	शनि 16/10/2038	केतु 05/04/2039	शुक्र 25/03/2040
गुरु 18/08/2036	शनि 20/02/2038	बुध 11/11/2038	शुक्र 30/04/2039	सूर्य 13/04/2040
शनि 21/09/2036	बुध 17/05/2038	केतु 21/11/2038	सूर्य 07/05/2039	चंद्र 15/05/2040
बुध 21/10/2036	केतु 22/06/2038	शुक्र 22/12/2038	चंद्र 20/05/2039	मंगल 06/06/2040

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	8
भाग्यांक	9
मित्र अंक	1, 2, 8, 9
शत्रु अंक	3, 7,
शुभ वर्ष	26,35,44,53,62
शुभ दिन	शनि, बुध, शुक्र
शुभ ग्रह	शनि, बुध, शुक्र
मित्र राशि	वृश्चिक, मेष
मित्र लग्न	सिंह, मकर, मीन
अनुकूल देवता	सूर्य
शुभ रत्न	हीरा
शुभ उपरत्न	जरकिन, ओपल
भाग्य रत्न	नीलम
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	रजत
शुभ दिशा	दक्षिणपूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मिसरी, दधि, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दूध

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पन्ना	बुध	92%	सुख, धन, सन्तति सुख
माणिक्य	सूर्य	78%	सुख
मोती	चंद्र	67%	सुख, पराक्रम
हीरा	शुक्र	67%	पराक्रम, स्वास्थ्य, शत्रु व रोग मुक्ति
नीलम	शनि	62%	कम खर्च, भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति
गोमेद	राहु	59%	पराक्रम, सुख
लहसुनिया	केतु	52%	भाग्योदय, कम खर्च
मूंगा	मंगल	0%	दाम्पत्य कष्ट, व्यय
पुखराज	गुरु	0%	व्यय, दुर्घटना, हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	22/12/2002	65%	55%	9%	92%	0%	73%	50%	44%	64%
शुक्र	22/12/2022	65%	55%	0%	98%	0%	80%	69%	66%	58%
सूर्य	21/12/2028	90%	73%	9%	92%	0%	55%	50%	44%	28%
चंद्र	22/12/2038	84%	80%	0%	98%	0%	67%	62%	44%	28%
मंगल	21/12/2045	84%	73%	21%	80%	0%	67%	62%	44%	58%
राहु	22/12/2063	65%	55%	0%	92%	0%	73%	69%	72%	28%
गुरु	22/12/2079	84%	73%	9%	80%	12%	55%	62%	59%	52%
शनि	22/12/2098	65%	55%	0%	98%	0%	73%	75%	66%	28%
बुध	23/12/2115	84%	55%	0%	100%	0%	73%	62%	59%	52%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	01/11/2006-10/01/2007 16/07/2007-10/09/2009 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 -----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028 -----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	13/07/2034-27/08/2036 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	27/08/2036-22/10/2038 05/04/2039-13/07/2039 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 -----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057 -----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	13/10/2065-03/02/2066 03/07/2066-30/08/2068 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	30/08/2068-04/11/2070 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076
अष्टम स्थानस्थ ढैया	20/03/2084-21/05/2086 21/05/2086-08/02/2087 -----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया

फल

सम
अशुभ
शुभ
सम
शुभ

क्षेत्र

पराक्रम हानि
सुख हानि
सन्तति
दाम्पत्य कलह
धनार्जन

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं चूंकि आपका मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है। अतः इसके प्रभाव से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। साथ ही स्वभाव से ही उनमें उग्रता रहेगी। यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन यह अल्प समय के लिए होगा तथा दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। साथ ही आप भी यदा कदा पित या गर्मी आदि से परेशानी की अनुभूति कर सकते हैं। मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह कार्य में विलम्ब होने की संभावना रहेगी तथा विवाह से पूर्व वार्ताओं में भी गतिरोध रहेगा लेकिन अंत में आप को सफलता अवश्य प्राप्त होगी तथा सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

सप्तम भावस्थ मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जन्म दोषों से आपको परेशानी हो सकती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप परिश्रम एवं पराक्रम से इच्छित सफलता अर्जित करेंगे। समाज से भी न्यूनाधिक मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। लग्न पर दृष्टि के प्रभाव से स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा। यदा कदा मानसिक अशान्ति की भी अनुभूति हो सकती है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद उत्पन्न होंगे जिससे परिवार की शान्ति प्रभावित होगी लेकिन इसका दुष्प्रभाव अल्प मात्रा में ही रहेगा।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए आपको किसी ऐसे मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे आपका परस्पर मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम,

अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इससे आपके सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- नवम् भाव में केतु स्थित है एवं शनि से दृष्ट है ।
- नवम् भाव का स्वामी नीच का होकर द्वादश भाव में स्थित है ।
- नवम् भाव का स्वामी नीचस्थ है और उस पर शनि का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में शनि और केतु के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें । पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें । शम्मी की समिधा से हवन करें । बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें । गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें ।

आपकी कुण्डली में केतु पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं । रंगबिरंगी चिड़ियों को दाना डालें । नारियल का दान करें या जल प्रवाह करें ।

ब्राह्मणों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह सूर्यबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

चतुर्थभाव में सूर्य हो तो जातक परमसुन्दर, कठोर, पितृधननाशक, चिन्तास्त, भाईयों से वैर करने वाला, गुप्तविद्या प्रिय एवं वाहन सुखहीन होता है।

सिंह राशि में रवि हो तो जातक सत्संगी पुरुषार्थी, योगाभ्यासी, वनविहारी, कोधी, गम्भीर, उत्साही, तेजस्वी एवं धैर्यशाली होता है।

आपके जन्म काल में सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। अतः पिता के आप प्रिय होंगे उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घ होगी। धनैश्वर्य से वे सर्वदा युक्त रहेंगे एवं जीवन के समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपका यत्नपूर्वक सहयोग करते रहेंगे। पिता से आपको धन, वाहन तथा अन्य प्रकार से सम्पत्ति अर्जित करते रहेंगे। इसके साथ ही नौकरी तथा व्यापार में भी आप उनसे सहयोग प्राप्त करते रहेंगे तथा उन्हीं के सहयोग से उन्नति भी करेंगे।

आप के मन में उनके प्रति सम्मान एवं आदर का भाव विद्यमान रहेगा एवं उनकी आज्ञा पालन में भी रुचि रहेगी। आपके परस्पर मतभेदों के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा परन्तु वह क्षणिक रहेगा। इसके अतिरिक्त जीवन में आप हमेशा उनके सुख दुःख का भी ध्यान रखेंगे तथा अवसरानुकूल वांछित सहायता भी प्रदान करेंगे।

चन्द्र

चतुर्थभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, मानी, दानी, उदार, रोगरहित, राजद्वेषवर्जित, कृषक, विवाह के पश्चात् भाग्योदयी, जलजीवी एवं बुद्धिमान होता है।

सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दृढदेही, दाँत तथा पेट का रोगी, मातृभक्त, अल्पसन्ततिवान्, गम्भीर, दानी, साहसी, शान दिखाने वाला अभिमानी, महत्वाकांक्षी एवं पुराने विचारों वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में होने से माता का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह रहेगा एवं जीवन में सर्वप्रकार की सुख सुविधाएं तथा अन्य सुखों को वे आपको प्रदान करेंगी। आपके मध्य मतभेद अल्प ही रहेंगे अतः परस्पर संबंध मधुर रहेंगे। साथ ही वाहनादि की प्राप्ति में भी वे आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी तथा कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करने देंगी।

आप भी उनका हमेशा हार्दि सम्मान करेंगे तथा उनकी आज्ञा एवं निर्देशों को मानने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। साथ ही अपने जीवन काल में उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करेंगे तथा आवश्यक सुखसुविधाओं को भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपके परस्पर संबंध मधुर एवं सुदृढ रहेंगे तथा जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करेंगे।

मंगल

सातवें भाव में मंगल हो तो जातक वातरोगी, राजभीरु, शीघ्रकोपी, कटुभाषी, स्त्रीदुःखी, धूर्त, मूर्ख, निर्धन, घातकी, धननाशक एवं ईर्ष्यालु होता है।

वृश्चिक राशि में मंगल हो तो जातक नीति-दक्ष, अच्छी स्मरण शक्ति ईर्ष्यालु स्वभाववाला, बहुतहठी, अभिमानी, चोरों का नेता, पातकी एवं दुराचारी होता है।

आपके जन्म काल में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक व्याकुलता की भी वे अनुभूति करेंगे। आपके प्रति उनके मन में स्नेह एवं सम्मान की भावना व्याप्त रहेगी तथा हमेशा शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह संबंधी या व्यापार संबंधी कार्यों में भी वे अपना यथाशक्ति योगदान देंगे तथा सदैव आपकी सफलता की कामना करेंगे। इसके साथ ही सुख दुःख में वे आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आप की भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी एवं उनको समस्त महत्वपूर्ण कार्यों एवं क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के कारण उसमें तनाव या कटुता आएगी परन्तु कुछ समय पश्चात् सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही उनकी शादी या व्यापार आदि कार्यों में भी आप उनकी वांछित सहायता करते रहेंगे।

बुध

चतुर्थभाव में बुध हो तो जातक पण्डित भाग्यवान् नीतिवान्, नीतिज्ञ, लेखक, विद्वान्, बन्धुप्रेमी, उदार, गतिप्रिय, आलसी, स्थूलदेही, वाहनसुखी एवं दानी होता है।

सिंह राशि में बुध हो तो जातक मिथ्याभाषी, कुकर्मि, ठग, कामुक, भ्रमणशील, अभिमानी, वक्ता, कम उम्र में विवाह, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं सरकारी नौकर होता है।

गुरु

द्वादश भाव में गुरु हो तो जातक मितभाषी, योगाभ्यासी, परोपकारी, उदार, आलसी, सुखी, मितव्ययी, शास्त्रज्ञ, सम्पादक, लोभी, यात्री एवं दुष्ट चित्तवाला होता है।

मेष राशि में गुरु हो तो जातक ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, वकील, वादी, प्रसिद्ध, कीर्तिमान, विजयी, उखभाव, धनी, विद्वान, प्रचुर सन्तान, उदार, नम्रभाषी परन्तु अपने आपको दूसरों से उच्च समझने वाला, सुखी विवाहित जीवन एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

शुक्र

तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक विद्वान्, कलाकार, आलसी, कृपण, धनी, सुखी, पराकमी, भाग्यवान्, बहने भाईयों से अधिक एवं पर्यटनशील होता है।

कर्क राशि में शुक्र हो तो जातक धार्मिक, ज्ञाता, सुन्दर, सुख और धन का इच्छुक, नीतिज्ञ, आवेशपूर्ण, डरपोक, दुःखी एवं प्रचुर सन्तान होता है।

शनि

बारहवें भाव में शनि हो तो जातक आलसी, दुष्ट, व्यसनी, व्यर्थ व्यय करने वाला, अपस्मार, उन्माद का रोगी, मातुलकष्टदायक, अविश्वासी एवं कटुभाषी होता है।

मेष राशि में शनि हो तो जातक आत्मबलहीन, मूर्ख, आवारा, कूर जालफरेव करने वाला, व्यसनी, निर्धन, दुराचारी, कपटी लम्पट एवं कृतघ्न होता है।

राहु

तृतीय भाव में राहु हो तो जातक योगाभ्यासी, विद्वान्, व्यवसायी, पराकमशून्य, दृढ़विवेकी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, दीर्घायु एवं बलवान् होता है।

कर्क राशि में राहु हो तो जातक चतुर, उदार, रोगी, अनेकों शत्रुओं वाला, धोखेबाज, धनहीन एवं पराजि होता है।

केतु

नवम भाव में केतु हो तो जातक सुखाभिलाषी, व्यर्थपरिश्रमी अपयशी, दुःखी एवं 48 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।

मकर राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमशील, पराकमी जन्म स्थान छोड़कर जाने वाला, प्रसिद्ध एवं तेजस्वी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- सूर्य
(22/12/2022 - 21/12/2028)

सूर्य की महादशा 22/12/2022 को आरम्भ होगी और 6 वर्ष की अवधि के बाद 21/12/2028 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। सूर्य यश, प्रतिष्ठा, शासकीय कृपा, उच्चाधिकार तथा सामान्य सफलता का प्रतिनिधित्व करता है और चतुर्थ भाव माता, धन गाड़ी और पारिवारिक खुशी को सूचित करता है। अतः इस दशा में आप को धन-सम्पत्ति और गाड़ी की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

आप सतत् उत्साही और क्रियाशील रहेंगे। किन्तु आपको अधिक परिश्रम तथा उत्तेजना से बचने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इनके कारण आपको रक्तचाप तथा हृदय-वेदना जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किन्तु उचित उपाय से इससे बचा जा सकता है। सम्बन्धियों के साथ संबंधों में तनाव के कारण मानसिक शान्ति में कमी हो सकती है।

अर्थ :

इस दशा के दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको अचल तथा पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। आपको इस अवधि में यातायात से लाभ होगा। आपको भूमि तथा भवन की प्राप्ति और भूमि-उत्पाद से लाभ होगा। इस दशा में सट्टे का परित्याग करें क्योंकि यह लाभदायक नहीं होगा।

व्यवसाय :

दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि जीवन-वृत्ति के लिये अत्यंत शुभ है। उन्नति, शक्ति तथा अधिकार प्राप्ति की सम्भावना है। आपको शासन अथवा अन्य उच्च प्राधिकारों से मान्यता प्राप्त हो सकती है। आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। आपको अपने उच्चाधिकारियों से सद्भाव तथा सहयोग मिलेगा। आप प्रशासनिक कार्यों में श्रेष्ठ रहेंगे। आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और आमदनी तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसायियों को साझेदारी के व्यवसाय में लाभ मिलेगा। इस दशा में आप कुछ अनुबन्ध कर सकते हैं। व्यवसाय से सम्बन्ध यात्रा हो सकती है। इस दशा में व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है।


पारिवारिक जीवन :

यदि आप अपनी इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित न करें तो आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। आप समाज के प्रति निष्ठा रखते हैं और उदार हैं। आपके अनेक मित्र हैं, किन्तु आप स्वच्छन्द हैं और आपकी इच्छाशक्ति अत्यन्त प्रबल है जिससे आपको कभी-कभी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सन्तानों से सम्बन्ध में कभी-कभी तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जीवन साथी को समृद्धि, कार्य के अच्छे अवसर, यश, प्रतिष्ठा, शक्ति, अधिकार आदि की

प्राप्ति होगी। आपकी माता के स्वास्थ्य को देख-रेख की जरूरत है। आपको पैतृक सम्पत्ति तथा पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को इस अवधि में लाभ मिलेगा और उनके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बड़े भाई-बहनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उन्हें अपने कार्यों में सफलता तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उनके साथ आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे।

शिक्षा :

आपका आकर्षण वेदान्त-दर्शन अथवा आध्यात्मिक विषयों की ओर हो सकता है। आपका समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। आपकी विज्ञान के सभी विषयों में रुचि होगी।



अंतर्दशा :- सूर्य - शनि
(28/10/2025 - 10/10/2026)

आपकी सूर्य की महादशा जारी है। इसमें छठी अंतर्दशा शनि की है जिसकी अवधि 11 मास 12 दिन है। आपके लिए यह 28/10/2025 को प्रारंभ होगी और 10/10/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में आपकी परामनोविज्ञान और प्राच्यविद्या में रुचि होगी। खर्च बढ़ेंगे। तबादला या परिवर्तन हो सकता है। अच्छे दिन आएंगे, मगर देर से। परिवार के बारे में कठोर निर्णय करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, नया व्यापार होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, मातहत सहयोग करेंगे। प्रसिद्धि, धन लाभ, यात्रा, सफलता, दार्शनिक दृष्टिकोण के संकेत हैं।

आपके जीवनसाथी को स्वास्थ्य की मामूली तकलीफ हो सकती है। पिता को जायदाद मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा, सांसारिक मामलों में सफलता मिलेगी। भाई-बहनों को लाभ, समृद्धि और कार्य में उन्नति मिलेंगे। संतान के जीवन में परिवर्तन हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो प्रोन्नति होगी मगर उच्चाधिकारियों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। परामर्शदाताओं की आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों को लाभ होगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गठिया, नेत्ररोग, थकान आदि से बचें। अरिष्ट से बचाव के लिए शनि मंत्र का जाप करें और उनकी आराधना करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः

अंतर्दशा :- सूर्य - बुध
(10/10/2026 - 16/08/2027)

आपकी सूर्य की महादशा 22/12/2022 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। यह 10/10/2026 को प्रारंभ होकर 16/08/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धिमत्ता, शिक्षा, वाणी का कारक है।

इस अवधि में आप भूमि प्राप्त करेंगे और सुख-समृद्धि से परिपूर्ण रहेंगे। सज्जन पुरुषों से आपकी मित्रता रहेगी और मामापक्ष के लोगों से संबंध मधुर रहेंगे। आपका निवास स्थान बदल सकता है। जमीन-जायदाद या विरासत से धन मिल सकता है। माता से सुख मिलेगा। जीवनसाथी के परिवार से जायदाद मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय होगी। कार्यस्थल पर लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। उद्योग, व्यापार, विज्ञान या संचार माध्यम से लाभ होगा। आपको उच्चपद प्राप्त हो सकता है।

जीवनसाथी या व्यापार में साझेदार को धन और नाम प्राप्त होंगे। आपके पिता को उपहार आदि द्वारा बिना परिश्रम का धन मिल सकता है। उनकी रुचि अध्यात्म में हो सकती है। आपकी माता के लिए समय भाग्यशाली है। आपके उनके साथ संबंध मधुर रहेंगे। छोटे

भाई-बहन धन कमाएंगे, बड़े भाई-बहनों का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। आपकी संतान को स्पर्धा में सफलता मिलेगी और कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी।

अगर आप सेवारत हैं तो वेतन में बढ़ोत्तरी होगी। परामर्शदाताओं का समय सर्वोत्तम रहेगा। व्यापारियों को कठिन परिश्रम करना होगा।

छाती, हृदय और स्नायुतंत्र के रोगों से बचाव करें। अनिष्ट से बचने के लिए दुर्गाजी की आराधना करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - केतु (16/08/2027 - 22/12/2027)

आपके लिए सूर्य की महादशा 22/12/2022 को प्रारंभ हुई थी। इसमें आठवीं अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 16/08/2027 को आरंभ होकर 22/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु संन्यास, मंत्रज्ञान ओर कष्टों का कारक है।

इस अवधि में आपकी अध्यात्म में रुचि रहेगी। विदेशियों के माध्यम से भाग्योदय हो सकता है। धन और प्रसिद्धि का संकेत है। पिता के साथ संबंध कुछ कटु हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। हिम्मत बढ़ेगी। छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर बनाने के लिए प्रयास करना होगा।

जीवनसाथी को लक्ष्यप्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। उनकी लघु यात्राएं होंगी। आपके पिता की धर्म में रुचि होगी; मान-सम्मान मिलेंगे। माता को धन का लाभ होगा, सफलता मिलेगी, शत्रुओं की पराजय होगी। भाई-बहनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे; खूब लाभ होगा और शोहरत मिलेगी।

आपकी संतान को तकनीकी शिक्षा में सफलता मिल सकती है, निवेश से लाभ मिलेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारियों से उत्तम संबंध रहेंगे। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी। व्यापारियों के कार्य में कुछ परिवर्तन का संकेत है।

बलगम वाली व्याधियों और हाथ-पैरों के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए गणेशजी की आराधना करें और श्वान को भोजन दें।

अंतर्दशा :- सूर्य - शुक्र (22/12/2027 - 21/12/2028)

सूर्य महादशा में शुक्र अंतर्दशा होगी।

इस अवधि में आपको यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई- बहनों से लाभ होगा। कला में रुचि होगी। वाक्विद्या, पत्र लेखन लाभकारी रहेंगे। आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, धन का

**महादशा :- चन्द्र
(21/12/2028 - 22/12/2038)**

चन्द्र की महादशा की अवधि दस वर्ष की है। आपकी कुण्डली में यह 21/12/2028 को आरम्भ और 22/12/2038 को समाप्त होगी।

चन्द्र मानसिक शान्ति और सुख का कारक है इसलिए दस वर्षों की इस अवधि में आपको शांति, समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी और धर्म-ईश्वर की ओर आपका झुकाव होगा।

स्वास्थ्य :

इस अवधि में आपको सुखी, शान्तिपूर्ण व उत्तम जीवन की प्राप्ति होगी। आप स्फूर्ति का अनुभव करेंगे और अपने कर्तव्यों और दैनिक गतिविधियों को पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे।

किसी बड़े रोग अथवा किसी अप्रिय दुर्घटना की सम्भावना नहीं है।

अर्थ और सम्पत्ति :

इस अवधि में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गाड़ी और जमीन-जायदाद के क्रय की सम्भावना है। आपके बैंक बैलेन्स में पर्याप्त वृद्धि होगी और आप सुख-सुविधा के साधनों पर व्यय करेंगे।

व्यवसाय :

नये विषयों और कार्यों की खोज में आपकी रुचि होगी। फलस्वरूप आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी जिसकी आपके सहकर्मी तथा वरिष्ठ कर्मचारी सराहना करेंगे। आपके व्यवसाय में आपकी स्थिति मजबूत होगी और सम्मान में वृद्धि तथा पद में उन्नति होगी। आपको यश और ख्याति प्राप्त होगी और आपका सर समाज में ऊँचा रहेगा। आपकी कुण्डली में यात्रा का संकेत है जो आपकी भलाई के लिए होगी। आपको यात्रा के अनेक अवसर

मिलेंगे।

पारिवारिक जीवन :

चन्द्र चतुर्थ भाव का कारक है जो परिवार, सम्पत्ति, माता तथा वाहन का द्योतक है। इस दशा के दौरान आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। सगे-संबंधियों तथा माता के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। मामा या नाना के साथ भी आपका संबंध मधुर रहेगा और उनसे लाभ मिलेगा।

इस दशा के दौरान आपके मामा को भी लाभ होगा तथा संभव है कि आपके और आपके मामा के बीच परस्पर मधुर संबंध के कारण आप दोनों को लाभ होगा।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

नये विषयों के अध्ययन के लिए यह दशा अत्यन्त उत्तम है। आप कोई पाठ्यक्रम आरम्भ कर सकते हैं अथवा अपने ज्ञान में सुधार के लिए अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - चन्द्र
(21/12/2028 - 22/10/2029)**

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष रहेगी। आपके लिए यह 21/12/2028 को प्रारंभ होकर 22/12/2038 को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र की अंतर्दशा की अवधि 10 मास रहेगी। आपके लिए यह 21/12/2028 को प्रारंभ होकर 22/10/2029 को समाप्त होगी।

चंद्रमा आपकी राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, स्वयं का मकान, घरेलू वातावरण, व्यक्तिगत संबंध, वाहन, बाग-बगीचे, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, दूध, तालाब और झील आदि का प्रतिनिधि है।

मन के कारक चंद्र के चतुर्थ भाव में स्थित होने से आपके माता-पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। घरेलू जीवन सुखी रहेगा। अचल संपत्ति और वाहनसुख का योग है। नये आवास या संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं या नया वाहन खरीद सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं।

शुभत्व में वृद्धि के लिए चंद्रमा के मंत्र के 11000 जाप करें। केवल भावनाओं में बहकर कार्य न करें, बुद्धि का प्रयोग करें।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - मंगल
(22/10/2029 - 23/05/2030)**

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपके लिए यह 21/12/2028 को प्रारंभ होकर 22/12/2038 को समाप्त होगी। इस महादशा में मंगल अंतर्दशा की अवधि 7 मास होगी। आपके लिए यह 22/10/2029 को प्रारंभ होकर 23/05/2030 को समाप्त होगी।

मंगल आपकी जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव लौकिक संबंध, जीवनसाथी, व्यापार में साझेदार, मुकदमें, विदेश में प्रभाव और जीवन में खतरों का परिचायक है। सप्तम में स्थित होकर मंगल कुंडली के 10, 1, 2 भावों पर दृष्टि डाल रहा है।

मंगल की अंतर्दशा में आप विपरीत लिंग के व्यक्तियों पर आसक्त रहेंगे। वाणी में कटुता, चालाकी और दरिद्रता का योग है जिससे विवाहित जीवन कष्टप्रद हो सकता है। क्योंकि आप मंगली हैं, अगर जीवनसाथी मंगली नहीं हैं तो उनका देहांत हो सकता है।

अरिष्ट से बचाव के लिए प्रतिदिन भौमगायत्री मंत्र के 108 जाप करें और हनुमान मंदिर में जाएं।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - राहु
(23/05/2030 - 21/11/2031)**

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपके लिए यह महादशा 21/12/2028 को प्रारंभ हुई और 22/12/2038 को समाप्त होगी। चंद्र महादशा में राहु की अंतर्दशा की अवधि 18 मास रहेगी। आपके लिए यह 23/05/2030 को प्रारंभ होकर 21/11/2031 को समाप्त होगी।

राहु आपकी जन्मपत्रिका के तृतीय भाव में स्थित है। तृतीय भाव मष्तिष्क का रुझान, बुद्धि, साहस, छोटे भाई-बहन, लघु यात्राएं, विचार संचार, हाथ, कंधे आदि का परिचायक है। राहु छायाग्रह है। इसका अस्तित्व नहीं है मगर शक्तिशाली होने के कारण महत्वपूर्ण है। अपने भाव की स्थिति और राशि के अनुसार यह शुभ या अशुभ होता है।

इस अवधि में आपको अचानक अप्रत्याशित समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आप घर से दूर जा सकते हैं। प्रत्येक विषय में आपके विचार अधिकांश व्यक्तियों से भिन्न हो सकते हैं, जिससे आप आलोचना का शिकार बन सकते हैं। तृतीय भाव में राहु सामान्यतः भाइयों के संबंध में अशुभ समझा जाता है, अतः उनके साथ व्यवहार में सावधानी रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए राहु के वैदिक मंत्र के 18,000 जाप करें।

